

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 1968/फाल्गुन 2, 1889
 No. 32] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 1968/PHALGUNA 2, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February 1968

G.S.R. 363.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1966, namely:—

1. This Order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Amendment Order, 1968.

2. In the Schedule to the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1966, for the entry "Ninety-nine paise (increase)" in column (2) against sub-item (iii) relating to Aviation Turbine Fuel per kilolitre in bulk of item (d), the entry "Rupees five point six eight (increase)" shall be substituted.

[No. F. 101(12)/67-PPD.]

M. V. RAJWADE, Jt. Secy.

